

क्यूआर कोड स्कैन करके स्टूडेंट्स जीके, जीएस व अन्य विषयों से होंगे रूबरू

हरिभूमि न्यूज गुरुग्राम

शिक्षा को रोचक बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षक अवॉर्ड से सम्मानित मौलिक मूल्याध्यापक मनोज कुमार नत नए प्रयोग करते रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अब शिक्षा के लिए क्यूआर कोड सृजित किया है। उनका कहना है कि अक्सर किसी भी सामान्य चार्ट में फोटो ही होता है। फोटो देखने मात्र से छात्रों को कोई जानकारी प्राप्त हो जाए, यह संभव नहीं है। जिले के बजधेड़ा गांव स्थित शहीद मेजर विनोद राणा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजधेड़ा में गुरुवार को मौलिक मूल्याध्यापक एवं इस वर्ष के प्रदेश के राष्ट्रीय शिक्षक अवॉर्ड से सम्मानित शिक्षक मनोज ने आईटीसी श्रेत्र में मोबाइल लर्निंग को विशेष तौर पर अपनाया। जिसमें वे क्यू-आर कोड द्वारा विशेष जानकारी बच्चों को उपलब्ध करवा रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षक अवॉर्ड से सम्मानित शिक्षक मनोज ने किया नवाचार

क्यूआर कोड चार्ट्स का शिक्षण सामग्री के रूप में होगा प्रयोग



गांव बजधेड़ा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में क्यूआर कोड वाले चार्ट दिखाते मनोज कुमार व विद्यार्थी।

शिक्षक मनोज कुमार लाकड़ा का कहना है कि अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य को रोचक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए कई प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है। वहीं संसाधन अधिक उपयोगी होते हैं, जो छात्रों को सीखने के लिए अधिक अनुभव प्रदान करें। अध्यापक इसके लिए बच्चों की रुचि के हिसाब से शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, जो बच्चों की ज्ञानवर्धन, आंख और कान को अधिक सक्रिय बनाकर उनके लिए विशेष सामग्री को अधिक सुबोध, रोचक व प्रभावशाली बनाता है।

हिमांशु ने विशेष चार्ट्स का किया निर्माण

मनोज के मार्गदर्शन में कक्षा बारहवीं के छात्र हिमांशु ने विशेष क्यू-आर कोड चार्ट्स का निर्माण किया है, जिनमें भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय राष्ट्रपति, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के महान खिलाड़ी, भारतीय महान वैज्ञानिक, भारतीय नदियां, मानव तंत्र, फलदार पेड़, भारत का नक्शा, हरियाणा का नक्शा, कक्षा छठी से कक्षा दसवीं तक की सभी पाठ्य पुस्तकें कक्षावार क्यू-आर कोड चार्ट बनाए हैं, जिन्हें बच्चे मोबाइल फोन द्वारा क्यूआर को स्कैन कर पढ़ने की सहायता से स्कैन कर इन विषयों में तुरंत व विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आईटीआई में दाखिलों की चौथी काउंसलिंग शुरू

गुरुग्राम जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आनलाइन दाखिले की चौथी काउंसलिंग शुरू हो गई है, जिसके लिए प्रार्थी 14 नवंबर तक अपनी फॉर्म आनलाइन भर सकते हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की प्राचार्या गीता आर सिंह ने बताया कि दाखिले के बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिले की सभी आईटीआई संस्थानों में चलाए जा रहे इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग व्यवसायों में सत्र 2020-21 के दाखिले के लिए आनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए पोर्टल दोबारा से खोल दिया गया है। इच्छुक प्रार्थी 16 नवंबर तक विभागीय वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। दाखिले से संबंधित दिशानिर्देशों बारे विवरण पत्रिका, जिलेवार संस्थानों की सूची, व्यवसायवार तथा संस्थानवार उपलब्ध सीटों के बारे में पूरी सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है।

दीपावली पर्व पर 130 प्रतिभावान लड़कियों को जिला प्रशासन देगा पुरस्कार

पहले चरण में 16 बेटियां हुई सम्मानित

हरिभूमि न्यूज गुरुग्राम

जिला प्रशासन ने दीपावली पर्व पर जिला के अकेली बेटे वाले परिवारों की विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बेटियों को सम्मानित करने की नई पहल शुरू की है। इस नई पहल के अंतर्गत जिला की 130 बेटियों को सम्मानित किया जाएगा। जिसकी शुरुआत गुरुवार को एडीसी प्रशांत पवार द्वारा 16 बेटियों को सम्मानित करके की गई है। बाकी बेटियों को खण्ड स्तर पर जाकर सम्मानित करने की योजना है। गुरुवार को जिले के चारों खण्डों से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली 16 लड़कियों को अतिरिक्त उपायुक्त प्रशांत पवार ने पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी पुस्तक-अग्नि की उड़ान शंकर सम्मानित किया। इन छात्राओं ने पढ़ाई, खेल-कूद, नृत्य कई विधाओं में अखिल-रही हैं। जिनका सम्मान हुआ है।

जिन परिवारों में एक बेटी है, और वे शिक्षा, खेल, नृत्य, संगीत समेत अन्य विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती आ रही हैं उनको किया जा रहा है सम्मानित। खंड स्तरों पर जिले में आयोजित हो रहे कार्यक्रम



गुरुग्राम में प्रतिभावान बेटियों को सम्मानित करते एडीसी प्रशांत पवार।

सम्मान कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त प्रशांत पवार के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कैप्टन इंदू बोकन, महिला एवं बाल विकास विभाग से सीडीपीओ नेहा, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी नियोजिका व कमिका सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

इन्हें किया गया सम्मानित

सम्मानित की गई छात्राओं में राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय जैकबपुरा से 12वीं कक्षा की छात्रा सुशी, राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय मानेसर से 11वीं कक्षा की छात्रा मेधा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इस्लामपुर से 11वीं कक्षा की छात्रा भारती, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चर्चोराबाद से 11वीं कक्षा की अजलिता, राजकीय गौड़ल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 43 से 9वीं कक्षा की सुशी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फरुखनगर से 9वीं कक्षा की सोनिया, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खंडेवला से नौवीं कक्षा की राधिका, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खंडेवला से दसवीं कक्षा की मुस्कान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जोनियावास से 11वीं कक्षा की रिंकू, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फरुखनगर से 12वीं कक्षा की पूजा राणा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोरा कला से 11वीं कक्षा की भावना, राजकीय उच्च विद्यालय बागखी से 10वीं कक्षा की छात्रा नेहा, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेना से 12वीं कक्षा की छात्रा रचना समेत अन्य 16 छात्राओं के नाम शामिल हैं।

प्रतिबंध के बावजूद बेचे जा रहे पटाखों के गोदामों पर छापेमारी

गुरुग्राम। सरकार द्वारा पटाखे बिक्री, पटाखे चलाने के प्रतिबंध के बावजूद फरुखनगर के बाजार में पटाखे बिक्री करने वाले दुकानदारों पर छापेमारी की। छापेमारी की अटक लगाते की दुकानदारों में पटाखे छुपाने की होड़ लग गई। जब तक पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तब तक सभी दुकानदार पटाखे छुपा चुके थे। हालांकि एकाध जगह से पटाखे बरामद करने में पुलिस कामयाब रही।

पुलिस ने दुकानदार को दिया नोटिस

थाना प्रभारी सविता कुमारी व आईओ सब-इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली का फरुखनगर के वार्ड-9 वाल्मीकी मोहल्ले में सतबीर नाम व्यक्ति सरकार के प्रतिबंध के बावजूद अपनी दुकान दुकान पर पटाखे बेच रहा है। पुलिस ने जायब तहसीलदार रणसिंह मोदी, फायर अधिकारी पटौदी रामकेश को शामिल करके रेड पार्टी तैयार की और छापेमारी की। दुकानदार को नोटिस दिया।

पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान से जुड़े कैदी डायना जेल में कैदी बना रहे हैं इको फ्रेंडली दीपक भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां, चाइनीज उत्पादों का बायकाट

गजियाबाद। डायना जेल में सजा पाए कैदी जेल परिसर में इस समय ये कैदी इको फ्रेंडली मिटटी के दीपक, भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां और कैलेंडर बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप को साकार कर रहे हैं। हर वर्ष दीवाली पर यहां चाइनीज झूलारों से जेल परिसर को सजाया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। परिसर में किसी भी प्रकार का कोई चाइनीज उत्पाद नजर नहीं आयेगा। दीपक व भगवान की आकृति वाली तस्वीरों को इन कैदियों ने पहले तो मिटटी की डाई से इनको तैयार किया उसके बाद इनको रंगबिरंगे रंगों से कवर किया है जिससे इनकी सुन्दरता में चार चांद लग गए।



अब मैं कुछ करना चाहता हूँ

हत्या के एक मामले में सजा काट रहे रामबीर का कहना है कि उसकी एक भूल से यह अपराध हो गया वह अब पश्चाताप कर देश के लिए कुछ करना चाहता है इसलिए अब वे स्वदेशी की ओर कदम बढ़ाया है।

मुख्यधारा में शामिल होने का कर रहा हूँ प्रयास

अपहरण के मामले में सजा काट रहे बिजेश का कहना है कि वह उस घटना को एक बुरे सपने की तरह भूलकर समाज की मुख्यधारा प्रवाह में शामिल होकर अपने गुनाह का पश्चाताप करना चाहता हूँ। चीन ने जो हमारी सीमा पर हरकत की है उसे हम नहीं भूल सकते। रमेश कैदी का कहना है कि जेल प्रशासन यहां सभ्य-सभ्य पर आध्यात्मिक एवं जीवन सुधार कार्यक्रमों का आयोजित करता है। यह कदम स्वागत योग्य है।

करंट लगने से टेंट हाउसकर्मों की मौत

हरिभूमि न्यूज गजियाबाद

थाना खोड़ा प्रभारी मोहम्मद असलम ने बताया कि गुरुवार की सुबह रिंकू, गुड्डू और अजय सुभाष पार्क में शनि बाजार स्थित जगबीर सिंह स्वीट्स कॉर्नर के बाहर टेंट लगाने के लिए अपनी पिकअप गाड़ी पहुंचे थे। जिसके बाद तीनों लोग पिकअप गाड़ी में से टेंट का सामान उतारने लगे। इसी दौरान गुड्डू जब पिकअप गाड़ी से टेंट उतारने का लोहे का पाइप उतार रहा था तो उसी समय विद्युत लाइन टूटने से हादसा हो गया।

हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल

घटना के बाद लोगों ने दिखा आक्रोश

11 हजार विद्युत लाइन से छू जाने से गुड्डू को करंट लग गया और वह विल्लाया। जिस पर रिंकू और अजय ने उसे बचाने का प्रयास किया। जिससे वह भी झूलस गए। हादसे के दौरान गुड्डू की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि रिंकू और अजय बुरी तरह झूलस गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को देने के साथ घायलों को दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में विद्युत विभाग के प्रति आक्रोश जताया।

धनतेरस पर चमका बाजार दुकानदारों की हुई चांदी

फरीदाबाद। धनतेरस पर गुरुवार को बाजारों में खासी रौनक रही। बतनों की खूब खरीदारी हुई तो सराफा बाजारों में सोने व चांदी के सिक्कों की भी खासी बिक्री हुई। सुबह से रात तक विभिन्न क्षेत्रों के बाजारों में चहल-पहल रही, ग्राहकों के बाजारों में आने से धनतेरस पर बाजार चमक उठाए तो दुकानदारों की चांदी हुई। दीपावली के नजदीक आने के कारण भी बाजारों में लोगों ने दीपावली पूजन सामग्री की खरीदी की। एनआईटी के परंपरागत बाजारों के अलावा सेक्टर की मार्केट तथा माल्स में भी बतनों, कुकर, डिश सेट, टी सेट, इंडेक्शन चूल्हे, डिजाइनर कप और अन्य सामग्री की डिमांड बनी हुई है।



इस मौके में शुभ मानी जाती है खरीदारी

धनतेरस के चलते सोना व चांदी के बर्तन तथा आभूषणों की खूब बिक्री हुई। सराफा बाजार में धनतेरस पर करोड़ों रुपये की खरीदारी हुई। लोगों ने चांदी के बर्तन जैसे कटोरी, गिलास खरीदे तो सोने के आभूषणों की भी खरीदारी की। धनतेरस पर गए बर्तन, सोने, चांदी की खरीदारी शुभ मानी जाती है।

विधिक सेवा व रेडक्रास सोसाइटी ने किया प्रयास

न्यायालय परिसर में चला प्लाज्मा जागरूकता अभियान

फरीदाबाद। न्यायालय परिसर सेक्टर-12 फरीदाबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला रेडक्रास सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को प्लाज्मा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम् मंगलेश कुमार चौबे के दिशानिर्देशानुसार इस कार्यक्रम को दिशा दी गई। मंगलेश चौबे ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी में फरीदाबाद में जिस प्रकार से रोज आंकड़े आ रहे हैं वह बेहद ही चिंताजनक है। इसकी अभी तक कोई वैकसीन भी नहीं आई है। जिसको देखते हुए निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

MY MONEY SECURITIES LTD.									
CIN: L67120DL1992P-PL047890									
Regd Office : 10-A, UNDERHILL LANE, CIVIL LINES, DELHI-54									
Ph. 011-23924241, 23930855									
EMAIL ID : mymoneyviews@outlook.com									
Extract of the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended 30th September, 2020 (Rs. In Lacs)									
Sr No	Particulars	Quarter Ended		Quarter Ended		Six Months Ended		Six Months Ended	
		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019
1	Total Income from operations (net)	8.85	19.65	20.97	28.50	7.17	(27.51)		
2	Net Profit/(Loss) for the period before tax, exceptional and/or extraordinary items	(4.79)	0.38	(12.32)	(4.41)	(49.09)	(147.16)		
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(4.79)	0.38	(12.32)	(4.41)	(49.09)	(147.16)		
4	Total comprehensive income for the period (comprising profit/(loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax	(4.79)	0.38	(12.32)	(4.41)	(49.09)	(147.16)		
5	Equity Share Capital	1000.03	1000.03	1000.03	1000.03	1000.03	1000.03		
6	Earning per share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each)	(0.048)	0.004	(0.123)	(0.044)	(0.491)	(1.471)		
	Diluted	(0.048)	0.004	(0.123)	(0.044)	(0.491)	(1.471)		
7	Earning per share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)	(0.048)	0.004	(0.123)	(0.044)	(0.491)	(1.471)		
	Diluted	(0.048)	0.004	(0.123)	(0.044)	(0.491)	(1.471)		

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 32 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and company website www.mymoneyviews.com For and on behalf of the Board of Directors Sd/- Sanjeev Sethi Place : Delhi Dated 12/11/2020 Whole Time Director DIN : 00350518

FORTUNE INTERNATIONAL LTD										
Regd. Office: G-4, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi-110028										
CIN : L52324DL1981PLC012033 E-Mail ID for investors: rekha.srivastava2016@gmail.com Tel: 011-25774212-214, 25771629										
Extract of Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year ended on 30th September, 2020										
(Figures in lacs)										
Particulars	Standalone Results			Consolidated Results						
	Quarter ended	Half Year Ended	Year ended	Quarter ended	Half Year Ended	Year ended				
	30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)				
Total income from operations (net)	-	-	-	-	-	-				
Net Profit/(Loss) for the period before tax, exceptional and/or extraordinary items	-1.82	15.70	-3.18	14.31	-424.17	-1.82	-2.28	-3.18	-3.67	-460.12
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	-1.82	15.70	-3.18	14.31	-424.17	-1.82	-2.28	-3.18	-3.67	-460.12
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	-1.82	15.61	-3.18	14.23	-424.22	-1.82	-2.36	-3.18	-3.76	-460.17
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	-1.82	15.61	-3.18	14.23	-424.22	242.89	137.64	426.27	153.97	-86.91
Paid up Equity Share Capital	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-	-1057.05	-	-	-	-	196.67
Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations)	-0.03	0.22	-0.05	0.20	-6.03	3.45	1.96	6.05	2.19	-0.89
Basic:	-0.03	0.22	-0.05	0.20	-6.03	3.45	1.96	6.05	2.19	-0.89
Diluted:	-0.03	0.22	-0.05	0.20	-6.03	3.45	1.96	6.05	2.19	-0.89
AUDITED STATEMENT OF ASSETS & LIABILITIES										
Sr. No.	Particulars	Standalone		Consolidated						
		As at September 30, 2020	As at March 31, 2020	As at September 30, 2020	As at March 31, 2020					
I. ASSETS										
1. Non Current Assets										
	(a) Property, Plant and Equipment	2.08	2.08	2.08	2.08					
	(b) Financial Assets									
	(c) Investments	370.31	370.31	2,063.48	1,624.03					
	(d) Other non-current assets	10.10	10.10	10.10	10.10					
	Total	382.50	382.50	2,065.66	1,636.21					
2. Current Assets										
	(a) Inventories									
	(b) Cash and cash equivalents	25.29	30.83	25.29	30.83					
	(c) Other current assets	3.32	1.17	3.32	1.17					
	Total	28.62	32.60	28.62	32.60					
	TOTAL	411.11	415.10	2,094.28	1,668.82					
II. EQUITY AND LIABILITIES										
EQUITY										
	(a) Equity Share Capital	704.00	704.00	704.00	704.00					
	(b) Other Equity	(1,060.23)	(1,057.05)	622.94	196.67					
	Total Equity	(356.23)	(353.05)	1,326.94	900.67					
LIABILITIES										
1. Non Current Liabilities										
	(a) Financial Liabilities									
	(i) Borrowings	766.00	766.00	766.00	766.00					
	Total	766.00	766.00	766.00	766.00					
2. Current Liabilities										
	(a) Other Current Liabilities	0.74	0.95	0.74	0.95					
		0.74	0.95	0.74	0.95					
	TOTAL	411.11	415.90	2,094.28	1,668.22					

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website: http://www.bseindia.com and also on the Company's website: http://www.fortuneinternational.in For FORTUNE INTERNATIONAL LTD Sd/- (Nivedan Bhardwaj) Managing Director (DIN: 00404191) Place: New Delhi Date : 12.11.2020

Govt working on steps to control price rise

PTI ■ NEW DELHI

Finance Minister Nirmala Sitharaman on Thursday said perishable goods are putting upward pressure on inflation and the government is working on both short and medium-term measures for controlling price rise.

The wholesale price index (WPI) based inflation rose to a seven-month high of 1.32 per cent in September, while retail inflation was at eight-month high of 7.34 per cent on spiralling prices of food items, especially vegetables.

Speaking to reporters, Sitharaman said floods in certain districts have led to uptick in prices of perishable goods, and the government is taking steps for their better preserva-



tion, long shelf life and providing weather proof storage, particularly for crops like onion and potato.

"Strictly, the perishable goods are the one which went up...And its more because some districts got flooded...The government is working on both short-term and medium-term steps. Import where necessary for short duration and for

medium-term, enough investment is being attracted to and incentives being provided to create agri infrastructure," she said.

The Reserve Bank in a report on the state of economy on Wednesday had also flagged unrelenting pressure of inflation as a downside risk confronting the prospects of economic recovery.

"The foremost is the unrelenting pressure of inflation, with no signs of waning in spite of supply management measures...There is a grave risk of generalisation of price pressures, unanchoring of inflation expectations feeding into a loss of credibility in policy interventions and the eventual corrosion of the nascent growth impulses that are making their appearance," RBI said.

FM announces ₹900 cr grant for Covid-19 vaccine research

New Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman on Thursday announced a ₹900 crore grant to the Department of Biotechnology for Covid-19 vaccine research. "We are providing ₹900 crore for research and development of Covid-19 vaccine. This is being provided for covid suraksha mission, purely for R&D but this money goes to Department of Biotechnology for research purposes," she said.

Sitharaman said the grant does not cover the actual cost of vaccine and distribution expenses, which will be made separately as and when the vaccine is available. "The actu-

al cost of the vaccine or logistics required for distributing the vaccine is totally different and whatever is required for that, as and when it is required will be provided. But this is totally a different purpose and this is for research for vaccine development which goes towards department of biotechnology," she added. Sitharaman also said that ₹10,200 crore additional budget outlay will be provided towards capital and industrial expenditure for domestic defence equipment, industrial incentives and infrastructure and green energy.

PTI

Industrial production grows 0.2% in Sept; enters positive territory after 6 months

PTI ■ NEW DELHI

Industrial production entered positive territory after a gap of six months, mainly due to higher output in mining and power sectors, official data showed on Thursday. The industrial output grew by 0.2 per cent in September, according to the Index of Industrial Production (IIP) data. The manufacturing sector - which constitutes 77.63 per cent of the index - recorded a marginal contraction of 0.6 per cent in September. The output of mining and power segments grew at 1.4 per cent and 4.9 per cent, respectively.

The IIP had contracted by 4.6 per cent in September 2019. The industrial production had witnessed a 5.2 per cent

growth in February this year. Thereafter it recorded a contraction of 18.7 per cent in March, (-) 57.3 per cent in April, (-) 33.4 in May, (-) 16.6 in June and (-) 10.8 in July this year. Meanwhile, the contraction in IIP for August has been revised to (-) 7.4 per cent from the (-) 8 per cent provisional data released last month. The government had imposed a lockdown to contain the spread of COVID-19 infections on March 25 this year.

With the gradual relaxation of restrictions, there has been a relative improvement in the economic activities by varying degrees as well as in data reporting, the Ministry of Statistics and Programme Implementation said in a state-

Retail inflation inches up to 7.61 pc in Oct

New Delhi: Driven by rising food prices, retail inflation inched up to 7.61 per cent in October, remaining above the comfort level of the Reserve Bank. According to the Consumer Price Index (CPI) data released by the government on Thursday, inflation stood at 7.27 per cent in September 2020. It was 4.62 per cent in October 2019. The rise in general inflation was mainly on account of elevated food prices.

PTI

Markets snap 8-session winning run despite new stimulus steps

Mumbai: The Sensex and Nifty snapped their eight-session rising streak on Thursday as the new set of stimulus measures announced by the finance minister failed to stem profit-booking in banking, IT and energy stocks. Lacklustre global cues and a weakening rupee further weighed on sentiment, traders said. After dropping 466.12 points during the day, the 30-share BSE Sensex ended 236.48 points or 0.54% lower at 43,357.19. Similarly, the broader NSE Nifty slipped 58.35 points or 0.46% to 12,690.80. SBI was the top loser

in the Sensex pack, shedding 3.16%, followed by Kotak Bank, IndusInd Bank, NTPC, ICICI Bank, Axis Bank, HDFC Bank and ONGC. On the other hand, HUL, ITC, L&T, Bajaj Finserv, Tech Mahindra and Bajaj Finance ended with gains of up to 2.89%. FM Nirmala Sitharaman on Thursday announced tax relief on select home sale deals, enhanced credit guarantee programme for small businesses and provide incentives for new job creation as the Govt widened stimulus measures to boost the economy.

PTI

Rupee slide continues for 4th day

Mumbai: Extending its losing streak to the fourth straight session, the Indian rupee dived 28 paise to end at 74.64 against the US dollar on Thursday on sustained demand for the greenback from importers and banks coupled with foreign fund outflows.

PTI

POWERGRID posts ₹3,117 cr profit after tax of for Q2FY21

Total Income rises by 8% to ₹9,890 crore

Gurgaon: Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID), a 'Maharatna' Company under Ministry of Power, GoI and the 'Central Transmission Utility (CTU)' of the country, has posted a PAT of ₹3,094 crore and Total Income of ₹9,831 crore on consolidated basis for Q2FY21. On standalone basis, the Company posted PAT and Total Income of ₹3,117 crore and ₹9,890 crore respectively for Q2FY21, registering an increase of about 23% & 8%

respectively with respect to the corresponding period of FY20.

For six-month period (H1FY21), the PAT and Total Income on consolidated basis are ₹5,142 crore and ₹19,648 crore respectively, which are about 1% and 6% higher with respect to the corresponding period of FY20, while on standalone basis, the PAT and Total Income are ₹5,097 crore and ₹19,511 crore respectively, registering a growth of 3% and 6% respectively.

₹85.3 cr revenue generated from the sale of 226 properties

Jaipur: On Dhanteras, Rajasthan Housing Board Housing Commissioner Pawan Aroda said that the residential properties in the Auction Festival E-Bid Submission scheme, being operated by the Rajasthan Housing Mandal, their shop-in their business plan, business grounds, built shops and premium properties.

He said that on this Dhanteras, there was a revenue of Rs 85 crore 33 lakhs from the sale of 226 properties.

PFC net profit jumps 72% to ₹4,290 cr in Sep qtr

New Delhi: State-run Power Finance Corporation (PFC) on Thursday reported a 72 per cent jump in its consolidated net profit at ₹4,290 crore in the July-September quarter on account of higher revenues.

Its net profit was ₹2,497 crore in the quarter ended September 30, 2019.

Total income of the company rose to ₹18,171.41 crore in the said quarter from ₹15,537.55 crore in the same period a year ago.

SCOPE welcomes Atmanirbhar Bharat 3.0

SCOPE (Standing Conference of Public Enterprises), apex body of Public Sector Enterprises welcomes the slew of measures announced by the Govt as part of Atmanirbhar Bharat 3.0 to retrace the economic growth of the country, which is already showing positive signs. Mr Atul Sobti, Director General, SCOPE said that while the country continues to effectively combat the pandemic, the stimulus announced shall provide further boost to employment, infrastructure, construction, manufacturing, exports and also promote positive business sentiments.

Notice Inviting e-Tender
No. SSA/Esstt/Sikhon Puthi/371/2020/3077 Date : 10.11.2020
Mission Director, Axom Sarba Siksha Abhijan Mission (Samagra Shiksha), Kahilipara, Guwahati-19, Assam invites tender through e-Tendering process from reputed offset printing presses having Web Offset Machine/ Sheet Offset Machine for printing and supply of Sikhon Puthi- LP and UP.

To participate in this tender process through e-procurement document, bidder should have valid Digital Signature Certificate (DSC) of class-II (minimum) and have to register in the portal <https://assamtenders.gov.in> by themselves.

The Bidder who have downloaded the tender schedules containing the tender details, terms and conditions, from the website shall submit their tender on-line on the website <https://assamtenders.gov.in>, with proof of payment of non refundable tender fee of Rs. 5000/- (Rupees five thousand) only in the form of demand draft/Bankers Cheque drawn in favour of Mission Director, Axom Sarba Siksha Abhijan Mission, Kahilipara, Guwahati-19, Assam, from any nationalized/Scheduled Bank and payable at Guwahati. The tender should be submitted on-line as per date and time of submission as per prescribed schedule.

Sd/-Executive Director, SSA, Assam, Kahilipara, Guwahati-19

SOUTH WESTERN RAILWAY
TENDER NOTICE No. 19/2020 Dated 09/11/2020
The undersigned, on behalf of the President of India, invites E-Tender through IREPS only for supply of following items: Tender closing Time: 14:00 Hrs.

Sl.	Tender No.	Description in brief	Qty.	Tender Due on
1	17201135	Purchase of spares (OH Kits) for Microprocessor Controlled Air Brake System (10 items)	1066 Nos.	07.12.2020
2	17201040	Purchase of Cylinder low pressure includes plugs.	78 Nos.	14.12.2020
3	30201800	Bogie frame arrangement for Non-AC coaches.	24 Nos.	15.12.2020

For details log on: www.ireps.gov.in

Principal Chief Materials Manager
Hubballi

Notice Inviting e-Tender
No. SSA/MDMS/Steel Container/19/2020/3079 Date: 10.11.2020
Mission Director, Axom Sarba Siksha Abhijan Mission cum State Nodal Officer-MDM, Kahilipara, Guwahati-19, Assam invites tender through e-Tendering process from manufacturer of Steel Utensil for supply of Stainless Steel Container for Mid Day Meal.

To participate in this tender process through e-procurement document, bidder should have valid Digital Signature Certificate (DSC) of class-II (minimum) and have to register in the portal <https://assamtenders.gov.in> by themselves.

The Bidder who have downloaded the tender schedules containing the tender details, terms and conditions, from the website shall submit their tender on-line on the website <https://assamtenders.gov.in>, with proof of payment of non refundable tender fee of Rs. 5000/- (Rupees five thousand) only in the form of demand draft/Bankers Cheque drawn in favour of Mission Director, Axom Sarba Siksha Abhijan Mission, Kahilipara, Guwahati-19, Assam, from any nationalized/scheduled Bank and payable at Guwahati. The tender should be submitted on-line as per date and time of submission as per prescribed schedule.

Sd/-Executive Director
SSA, Assam

Notice Inviting e-Tender
SSA/Esstt/Aids & Appliance/702/2014/Pt/3078 Date :10.11.2020
Mission Director, Axom Sarba Siksha Abhijan Mission (Samagra Shiksha), Kahilipara, Guwahati-19, Assam invites tender through e-Tendering process from reputed supplier for supply of Assistive Device Equipment.

To participate in this tender process through e-procurement document, bidder should have valid Digital Signature Certificate (DSC) of class-II (minimum) and have to register in the portal <https://assamtenders.gov.in> by themselves.

The Bidder who have downloaded the tender schedules containing the tender details, terms and conditions, from the website shall submit their tender on-line on the website <https://assamtenders.gov.in>, with proof of payment of non refundable tender fee of Rs. 1000/- (Rupees one thousand) only in the form of demand draft/Bankers Cheque drawn in favour of Mission Director, Axom Sarba Siksha Abhijan Mission, Kahilipara, Guwahati-19, Assam and payable at Guwahati. The tender should be submitted on-line as per date and time of submission as per prescribed schedule.

Sd/-Executive Director, SSA, Assam, Kahilipara, Guwahati-19

NORTHERN RAILWAY
Corrigendum/Addendum-I
Due to technical reasons, extend the date of opening in respect of the NIT no. 558-Sig-16/M/Tender/1353 which is scheduled to be opened on 25.11.2020 for the work of "Provision of Auto Signalling between HNZM and OKA Station of Delhi Division." following changes are made:

S.No.	As per NIT drawn	To be read as
1	Date of Opening : 25.11.2020	Date of Opening : 04.12.2020

All other terms and condition will remain unchanged.
Tender No. 558-Sig/16/M/Tender/1353 Date : 12.11.2020 2522/2020
Serving Customers With A Smile

MY MONEY SECURITIES LTD.
CIN: L67120DL1992PLC047890
Regd Office : 10-A, UNDERHILL LANE, CIVIL LINES, DELHI-54
Ph. 011-23924241, 23930655
EMAIL ID : mymoneyviews@ourlook.com

Extract of the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended 30th September, 2020

S/No.	Particulars	Quarter Ended		Quarter Ended		Six Months Ended		Six Months Ended		(Rs. in Lacs)
		30.09.2020	30.06.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	31.03.2020			
1	Total Income from operations (net)	8.85	19.65	20.97	28.50	7.17	(27.51)			
2	Net Profit/(Loss) from Ordinary Activities after tax	(4.79)	0.38	(12.32)	(4.41)	(49.09)	(147.16)			
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(4.79)	0.38	(12.32)	(4.41)	(49.09)	(147.16)			
4	Total comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax	(4.79)	0.38	(12.32)	(4.41)	(49.09)	(147.16)			
5	Equity Share Capital	1000.03	1000.03	1000.03	1000.03	1000.03	1000.03			
6	Earning per share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic Diluted	(0.048)	0.004	(0.123)	(0.044)	(0.491)	(1.471)			
7	Earning per share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic Diluted	(0.048)	0.004	(0.123)	(0.044)	(0.491)	(1.471)			

Note :
The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and company website www.mymoneyviews.com

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/- Sanjay Seth
Place : Delhi Date : 12/11/2020
Whole Time Director
DIN : 00350518

Commerce Ministry seeks stakeholder suggestions for next foreign trade policy

PTI ■ NEW DELHI

The Commerce Ministry on Thursday sought suggestions from stakeholders, including industry and trade associations, for the formulation of next foreign trade policy (FTP). The FTP provides guidelines for enhancing exports to push economic growth and create jobs. The Directorate General of Foreign Trade (DGFT), in a trade notice, said a Google form has been created to collate, analyse and process the suggestions/inputs. Stakeholders are requested to send their comments only through this form rather than e-mail or paper based submissions within 15 days from November 12, it added.

India loses 21% of brand value to \$2 tn due to pandemic: Report

Mumbai: Despite losing 20.8 per cent of its value to the disruptions caused by the pandemic, the country could hang to be the seventh most-valuable nation with a brand value of USD 2 trillion, according to a report.

The US continues to lead the brand value league with USD 23.73 trillion after losing 14.5 per cent of its followed by China, which lost its value by 3.7 per cent to USD 18.76 trillion, brand valuation and strategy consultancy Brand Finance said in the report on Thursday.

ANGEL BROKING LIMITED.
Regd. Off: G-1, Akruvi Trade Centre, MIDC, Road No. 7, Andheri (E), Mumbai-93
SEBI Registration No (Stock Broker): IN2000161534

PUBLIC NOTICE

Name of SB/AP	Trade Name of SB/AP	BSE Reg No.	NSE Reg No.	MCX Reg No.	NCDEX Reg No.	Regd Address of SB/AP
Dharmenda Singh Rajawat	Dharmenda Singh Rajawat	AP01061	AP03971	MCX/AP/111141	-	K-1/18/1177, Sangam Viharupsha Bhawan S.O, South Delhi, Delhi -110062, Delhi

This is to inform/confirm that we have discontinued our Business Relations with the above mentioned Authorized Persons. Clients and General Public are warned against Dealing in with them in his/her capacity as our Authorized Persons and we hereby confirm that we will not be liable in any manner for any consequence of such dealings/deals. Clients are requested to contact our centralized desk 022-3355 1111/4218/5454 or email us to support@angelbroking.com.

For ANGEL BROKING LTD
Sd/-
Authorised Signatory

MODI RUBBER LIMITED
CIN: L25199UP1971PLC003392, Registered Office: Modinagar - 201204 Dist. Ghaziabad (U.P.), Corporate Office: 4-7C, DDA Shopping Centre, New Friends Colony, New Delhi 110025
Website: www.modirubberlimited.com Email: investors@modigroup.net Phone: +91-11-47107398

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020

(Amount in Lacs)

Sl. No.	Particulars	QUARTER ENDED						HALF YEAR ENDED				YEAR ENDED	
		STANDALONE		CONSOLIDATED		STANDALONE		CONSOLIDATED		STANDALONE	CONSOLIDATED	STANDALONE	CONSOLIDATED
		Sep 30, 2020	Sep 30, 2019	June 30, 2020	Sep 30, 2020	Sep 30, 2019	June 30, 2020	Sep 30, 2020	Sep 30, 2019	Sep 30, 2020	Sep 30, 2019	Mar 31, 2020	Mar 31, 2020
1	Total Income from operations (Net)	46.87	101.21	109.15	46.87	101.21	103.15	156.02	223.98	150.02	223.98	513.35	489.35
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	991.11	1,355.92	(180.06)	(233.90)	1,410.90	(199.04)	811.05	1,107.56	(432.94)	1,185.89	849.42	(742.54)
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	991.11	1,355.92	(180.06)	(494.10)	1,410.90	(199.04)	811.05	1,107.56	(693.14)	1,185.89	849.42	(742.54)
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	991.11	1,355.92	(180.06)	(67.14)	1,410.90	(667.14)	811.05	1,107.56	(734.28)	1,185.89	564.55	(233.20)
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax)	1,447.11	1,482.45	6.20	842.88	1,650.40	(315.83)	1,453.31	1,168.60	527.05	1,352.52	328.92	(634.79)
6	Equity Share Capital (Face value of share is Rs. 10/- each)	2,504.05	2,504.05	2,504.05	2,504.05	2,504.05	2,504.05	2,504.05	2,504.05	2,504.05	2,504.05	2,504.05	2,504.05
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
8	Earnings per share (EPS) (of Rs. 10/- each) (Not Annualised)												
	(a) Basic and Diluted EPS (before exceptional Items) (in Rs.)	3.96	5.41	(0.72)	0.77	5.63	(2.66)	3.24	4.42	(1.89)	4.74	2.25	(0.93)
	(b) Basic and Diluted EPS (after exceptional Items) (in Rs.)	3.96	5.41	(0.72)	(0.27)	5.63	(2.66)	3.24	4.42	(2.93)	4.74	2.25	(0.93)

NOTES:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the stock exchange website, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company website www.modirubberlimited.com.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on November 12th, 2020. The Statutory Auditors of the Company have carried out a limited review of the aforesaid results.
- Previous quarter/ year end figures have been rearranged and / or regrouped, wherever necessary, to make them comparable with those of the current quarter/ year end.

Place : New Delhi
Date : 12th November, 2020

By order of the Board
Sd/-
Piya Modi
Whole Time Director